


बड़ी कंपनियों का लेबल चिपका करते थे शराब की तस्करी, फतेहाबाद पुलिस ने 1176 बोतलें पकड़ीं



Publish Date: Tue, 22 Dec 2020 01:49 PM (IST) Author: **Umesh Kdhyani**

पुलिस ने हंस कालोनी के पास केंटर से बरामद की बोतलें। अलग अलग कंपनी के लेबल लगाकर शराब की सप्लाई करने के लिए जा रहे थे आरोपित। पुलिस ने हंस कालोनी के ही दो लोगों को किया है गिरफ्तार।

हिसार/फतेहाबाद, जेएनएन। फतेहाबाद पुलिस को शराब तस्करी मामले में बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने ऐसी खेप पकड़ी है जो नकली होने का संदेह भी प्रकट कर रही है। शराब की बोतलों में बड़ी कंपनियों की शराब होने का लेबल तक लगा हुआ था। ऐसे में पुलिस शराब की जांच भी करवा रही है कि यह शराब सही है या नहीं। पुलिस ने इस मामले में फतेहाबाद के हंस कालोनी निवासी दो लोगों को केंटर से सहित पकड़ा है। केंटर से पुलिस ने 1176 शराब की बोतलें बरामद की हैं। वहीं आरोपितों की पहचान हंस कालोनी निवासी कुलदीप व मोहनलाल के रूप में हुई है। पुलिस अब आरोपितों को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लेगी। पुलिस पता करेगी कि यह शराब कहां से आई थी और कहां लेकर जा रही थी।

गुप्त सूचना पर पुलिस ने की कार्रवाई

जानकारी के अनुसार पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि एक केंटर में शराब की अवैध तस्करी की जा रही है। जिसके बाद एएसआइ रामजी लाल अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंच गए। वहीं वाहनों की जांच शुरू कर दी। पुलिस ने हंस कालोनी के पास नाका लगाया हुआ था। इसी दौरान एक केंटर आता हुआ दिखाई दिया। पुलिस को देखकर केंटर को कुछ दूरी पर ही रोक लिया। लेकिन पुलिस ने आरोपितों को पकड़ लिया।

शराब की क्वालिटी की होगी जांच

जब केंटर की जांच की तो उसके अंदर से बड़ी मात्रा में शराब की बोतलें बरामद हुईं। वहीं पुलिस जांच में सामने आया है कि शराब की जिन बोतलों पर लेबल लगा हुआ था वो नकली था। ऐसे में आरोपित दूसरी कंपनी का लेबल लगाकर शराब की तस्करी करते थे। ऐसे में अंदेशा भी लगाया जा रहा है कि शराब की क्वालिटी भी ठीक नहीं है जिसकी जांच पुलिस कर रही है।

इस ब्रांड की इतनी शराब मिली

-केंटर से बरामद की 1176 शराब की बोतलें

-45 पेटी देशी ठेका मार्को की शराब।

-18 पेटी ठेका देशी मालटा क्लब की शराब

-23 पेटी शिकंदर महल की शराब

-12 पेटी जगाधरी की शराब।

लेबल दूसरी कंपनियों का लगा हुआ था

पुलिस ने जब आरोपितों से पूछताछ की तो केंटर से मिली शराब के बारे में जानकारी हासिल की। लेकिन आरोपित किसी प्रकार के कागजात नहीं दिखा पाए। वही बैच नंबर आदि की जांच की तो वो भी नकली मिला। वहीं आरोपितों ने बताया है कि इन शराब की बोतलों पर दूसरी कंपनियों के लेबल लगाकर शराब सप्लाई की जा रही थी। पुलिस ने धोखाधड़ी सहित अनेक धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

Source: <https://www.jagran.com/haryana/hisar-smuggling-fake-liquor-used-to-stick-labels-of-big-companies-1176-bottles-caught-21192353.html>